



BK BIRLA GROUP OF COMPANIES

MANGALAM CEMENT LTD.



MC/SEC

17th April, 2020

The Corporate Relations Department
The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G-Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai 400 051
Security Code : MANGLMCEM

The Corporate Relations Department
Department of Corporate Services
BSE Limited
25th Floor
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai – 400 001
Scrip Code: 502157

Subject: Newspaper Publication for postponement of Hon'ble NCLT convened meetings scheduled to be held on 18th April, 2020 due to COVID-19

Dear Sir/Madam,


Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 and all other applicable provision of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith a copy of newspaper advertisement(s) published in 'Financial Express' (All English Edition) in English and in 'Rashtrdoot' (All Rajasthan Editions) in Hindi on Friday, 17th April, 2020, titled - "ADVERTISEMENT OF POSTPONEMENT OF NCLT CONVENED MEETING(S) OF EQUITY SHAREHOLDERS, SECURED CREDITORS AND UNSECURED CREDITORS".

Further the copy of above said newspaper advertisement(s) is also placed on the website of the Company.

We request you to please take the above on your record and inform the stakeholder accordingly.

Thanking You

For Mangalam Cement Limited


Manoj Kumar
Company Secretary

Encl.: as above

Regd. Office & Works : P.O. Aditya Nagar-326520, Morak, Distt. Kota (Raj.) CIN : L26943RJ1976PLC001705, Telefax : 07459 - 232156
Website : www.mangalamcement.com, E-mail : email@mangalamcement.com
Kota Office : Shop No. 20, 80 Feet Road, Opp. Sukhdham Colony, (Near SBI Bank) Kota - 324001 (Rajasthan)
Mob : 9351468064 / 9351468055 / 9351468445, E-mail : mclka@kappa.net.in
Delhi Office : 153, Leela Building (GF), Okhla Indl. Estate, Phase-III, New Delhi - 110020
Tel. No. : 011- 43539132, 43539133, 43539137 Fax : 011- 23421768
E-mail : delhi.purchase@mangalamcement.com, delhi.marketing@mangalamcement.com
Jaipur Office : 2nd Floor, Geejgarh Tower, Hawa-Sarak, Jaipur - 302 006 (Rajasthan)
Tel. : 0141 - 2218933, 2218931, E-mail : jaipur.marketing@mangalamcement.com

20 lakh migrant workers stranded in relief camps

FE BUREAU
New Delhi, April 16

AT LEAST 20 lakh migrant workers are now stranded away from their native places. They are living in relief camps set up by state government authorities or by their employers in localities where they were clustered before the outbreak of Covid-19, sources in the labour ministry said.

The number of such stranded workers might, however, go up as the labour ministry, which is mapping details of such workers with the help of district administrations, is yet to receive responses from some states, officials said, adding that any decision on providing them with any financial help

The labour ministry has started mapping details of such workers from April 8. Details of their bank accounts and Aadhaar cards are also being collected

bank accounts and Aadhaar cards are also being collected. Those who are mainly employed in occupations like agriculture, domestic work, building and other construction work, shop and establishment service, automobile work, security services, rickshaw pulling, hotel and restaurant services are being mapped.

As per Census 2001, the total number of internal migrants in India was 309.385 million. The ministry of home affairs had on April 12 written to all states to take necessary action in compliance of the directions of the apex court, while implementing lockdown measures.

As per Census 2001, the total number of internal migrants in India was 309.385 million.

The ministry of home affairs had on April 12 written to all states to take necessary action in compliance of the directions of the apex court, while implementing lockdown measures.

As per Census 2001, the total number of internal migrants in India was 309.385 million. The ministry of home affairs had on April 12 written to all states to take necessary action in compliance of the directions of the apex court, while implementing lockdown measures.

ED books Tablighi Jamaat leader Saad under PMLA

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, April 16

THE ENFORCEMENT DIRECTORATE (ED) has filed a money laundering case against Tablighi Jamaat leader Maulana Saad Kandhalvi, trusts linked to the Jamaat and others, officials said on Thursday.

They said an Enforcement Case Information Report (ECIR) has been filed by the agency based on a Delhi Police FIR.

A criminal case under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) has been filed against Kandhalvi, the trusts linked to him and the Jamaat and few others, a senior official said.

The Delhi Police's crime branch had, on March 31,

lodged an FIR against seven people, including the cleric, on a complaint by Station House Officer of Nizamuddin police station for holding a congregation of Tablighi Jamaat followers in alleged violation of the orders against large gatherings to contain the spread of coronavirus.

Auction discovers solar tariff of ₹2.55/unit

ANUPAM CHATTERJEE
New Delhi, April 16

THE LATEST REVERSE auction for 2,000 mega-watt (MW) of solar capacity, conducted by NHPC, has discovered a tariff of ₹2.55 per unit. Though this is higher than the lowest bid of ₹2.50/unit in the auction for 1,200 MW of solar capacity held in February, it is still much lower than

₹2.71/unit in the last major solar auction in October, 2019. According to sources, Soft-Bank Group's SB Energy, Axis Energy Group (backed by Canadian investment firm Brookfield), O2 Power and New York-based Eden Renewables' Indian arm have been awarded 600 MW, 400 MW, 380 MW and 300 MW, respectively, all at ₹2.55/unit. Avaada Energy was

awarded 320 MW at ₹2.56/unit against their bid for 600 MW. The auction had received a positive response from investors with NHPC receiving bids of 3,540 MW for the tender. This is a shift from the recent trend of tenders being under-subscribed. As it was with the last major solar tender auctioned by SECI in February, the winning developers are backed mostly by foreign capital.

Bank of Baroda (A Govt. of India Undertaking)

ZOSARB, 13th Floor, Bank of Baroda Building, 16 Sansad Marg, New Delhi - 110001

CORRIGENDUM

This is in reference to the advertisement published in this newspaper on dated 14-03-2020 for E-Auction Sale of property, we hereby notify the general public that the auction of property of **M/s Profigate Infra Gasoline Pvt. Ltd.** is e-auctioned on 24.04.2020 now stands cancelled from the E-auction

Place : New Delhi, Authorized Officer: Bank of Baroda
Date : 16-04-2020

Indian Bank (A Govt. of India Undertaking)

Information Technology Department, Corporate Office, Chennai
Indian Bank, a leading Public Sector Bank, is interested in:

1. Procurement, Installation Integration & Maintenance of NOC, ITSM, Asset and Patch Management Solution including AMC of network devices.
2. Procurement, Installation, Maintenance and Deployment of Core Switches & other network equipments.
3. EOJ for Implementation of Enterprise integration including APIM.
4. Entering into Rate Contract for Supply & Installation of LAN Cabling Items.

Interested parties may refer Bank's Website: <https://www.indianbank.in/> tenders for details.

U. P. CO-OPERATIVE SUGAR FACTORIES FEDERATION LTD.
9-A, Rana Pratap Marg, Lucknow, Telephone: (0522) 2200183, (0522) 2623310, Fax: (0522) 2627994
Email: upsugarfed@yahoo.co.in Website: www.upsugarfed.org

TENDER NOTICE

On line e-tenders are invited from manufacturers/authorized distributors/importers/Stockists / Channel partners/ Authorized dealers (as per details given in tender documents) for Roller Reshelling works and supply of Boiler Tubes, M.S & G.I. pipe, Chain & Sprocket, Stainless Steel Tubes, Brass tubes, Cast steel stems, Cast Steel, Packing & Joining, C.I. Sluice valves, A.M.C for turbine, Bearings, V belts, Welding item, Switchgear items, P.V.C. Cable, Electric motors, Pumps & spares, Lubricants, Domestic tips, Centrifugal machine, Juice heater, Calandria, Evaporator body V.F.D., Special grease, Computer stationery, A.M.C of Computer hardware, Nickel screen, sulphur, Caustic soda, Sulphur transportation, Lime & HDPE 50 kg bags to various Cooperative Sugar Factories of U.P. The e-tender documents with detailed specifications, make terms and conditions etc. can be downloaded from e-tender portal <http://etender.up.nic.in/> and federation website www.upsugarfed.org time to time. The tender will be updated on 20.04.2020 and opening date will start from 14.05.2020. The Managing Director Federation reserves the right to cancel any or all bids/annual e-bidding process without assigning any reason to & decision of Federation will be final & binding.

(BIMAL KUMAR DUBEY)
MANAGING DIRECTOR

भारतीय कोन्कर निगम लिमिटेड
CONCOR CORPORATION OF INDIA LTD.
एक सरकारी कोन्कर (अन्तर सरकारी का प्रयुक्त) (A Govt. of India Undertaking)
ICD, Tughlakabad, New Delhi - 110020

TENDER NOTICE (E-Tendering Mode Only)

CONCOR invites Online Open E-Tender in Single bid system for "Providing Pest Control Services at ICD/Tughlakabad, New Delhi" only through e-tender mode. The bid document can be downloaded from the website www.tenderwizard.com/CCIL on payment of ₹ 1000/- online.

Tender No.	CON/NR/TKO/C&A/Pest Control/2020
Estimated Cost	₹ 21,24,000/- including GST@18% (for total contract period)
Contract Period	2+1 years
Earnest Money Deposit	₹ 21,240/- through e-payment
Cost of Tender Document	₹ 1000/- inclusive of all taxes and duties through e-payment
Tender Processing Fee	₹ 1254/- inclusive of all taxes and duties (Non-refundable) through e-payment.
Date of Sale (On Line)	From 17.04.2020, 15:00 hrs. to 07.05.2020 upto 16:00 hrs.
Issue of Corrigendum (if any)	on or after 23.04.2020 on www.tenderwizard.com/CCIL only
Last Date & Time of submission of tender	08.05.2020 upto 15:00 hrs.
Date & Time of Opening of tender	11.05.2020 at 15:30 hrs.

For eligibility criteria and other details please log on to www.concorindia.com or www.tenderwizard.com/CCIL. CONCOR reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons therefor.

Group General Manager (C&O) / Northern Region

पंजाब नैशनाल बैंक
punjab national bank

HO: PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT
C-13, SECTOR-1, NOIDA-201301 (U.P.)

Tenders for (1) printing of Bank's Annual Report 2019-20 and for (2) procurement of envelopes for their dispatch.

Punjab National Bank invites following 2 separate tenders under 2-bid system:-

- 1 E-tender For Printing of investor's copy of Bank's Annual Report**
- 2 Sealed tender for procurement of approx. 2,00,000 envelopes for dispatch of Bank's Annual Report.**

E-tenders for printing of approx. 2,00,000 copies of Abridged version & approx. 500 copies of Full version of bank's Annual Report 2019-20 from Delhi NCR based high quality offset printers which fulfill the eligibility criteria specified by the bank for execution of this job.

Sealed tenders for procurement of around 2,00,000 envelopes as per bank specifications from Delhi NCR based envelope manufacturers. For detailed description, interested bidders may refer to the individual tender documents.

Both complete tender documents can be collected personally on any working day from 17.04.2020 onward during working hours from Punjab National Bank, Printing & Stationery Deptt., C-13 Sector-1, NOIDA (UP) by paying Non-refundable tender fee of Rs.1,180/- for each tender through Account Payee Demand Draft in favour of the Chief Manager, Punjab National Bank, Printing & Stationery Deptt., Noida.

- Tender document for **Tender 1** can also be downloaded from Bank's e-procurement portal <https://etender.pnbnet.in> and Bank's website www.pnbindia.in.
- For **Tender 2**, the tender document can also be downloaded from Bank's website www.pnbindia.in.

The last date of submission of the 2 tenders is as under:-

- 1 Through Bank's e-procurement portal for Printing of Annual Report (Investor's Copy) - **08.05.2020 upto 1:00 p.m.**
- 2 Sealed tenders for procurement of Envelopes - **08.05.2020 upto 2:30 p.m.**

CHIEF MANAGER

Before the National Company Law Tribunal
Jaipur Bench, Jaipur
CA(CAA) No.72 / 230 / JPR / 2020

In the Matter of the Companies Act, 2013 - Section 230(T) read with Section 232(1) And

In the Matter of: Mangalam Cement Limited, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and being a Company within the meaning of the Companies Act, 2013, having Corporate Identification No. L26943RJ1976PLC001705 and its registered office at P.O.: Aditya Nagar - 326520, Morak, District: Kota, in the State of Rajasthan. Applicant

ADVERTISEMNET OF POSTPONEMENT OF NCLT CONVENED MEETING(S) OF EQUITY SHAREHOLDERS, SECURED CREDITORS AND UNSECURED CREDITORS

NOTICE is hereby given that considering the severity of the pandemic situation of COVID-19 and in the light of ongoing lockdown throughout the Country as declared by Central/State Government(s), the following separate meeting(s) of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of Applicant/Transferee Company, scheduled to be held on Saturday, the 18th day of April, 2020 as per directions of Hon'ble Jaipur Bench of National Company Law Tribunal vide its order dated 12th day of March, 2020, **are postponed till further notice.**

S. No.	Name of Meeting	Time of Meeting	Place of Meeting
1	Equity Shareholders	10.00 A.M.	Club Hall, Mangalam Staff Colony which is situated within the Registered Office premises of the Mangalam Cement Limited at P.O.: Aditya Nagar - 326520, Morak, District: Kota, in the State of Rajasthan.
2	Secured Creditors	12.00 Noon	
3	Unsecured Creditors	2.00 P.M.	

It is further informed that the company will seek directions for holding said meeting(s) from appropriate authority(ies) and the details shall be intimated in due course accordingly.

Sd/-
Date: 16.04.2020
Place: Jaipur
Pradeep Pincha
Chairperson appointed for the meeting(s)

MANGALAM CEMENT LIMITED
Regd. Office: P.O. Adityanagar 326520, Morak, Dist. Kota (Rajasthan) | CIN: L26943RJ1976PLC001705
Phone: +91 7459 233 127 | Fax: +91 7459 232 036
Website: www.mangalamcement.com | e-mail: shares@mangalamcement.com

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF THE LINKS INDIA PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of Corporate Person	THE LINKS INDIA PRIVATE LIMITED
2. Date of Incorporation of Corporate Person	03/12/2013
3. Authority Under Which Corporate Person is Incorporated/Registered	ROC-Delhi
4. Corporate Identity Number of Corporate Person	U22222DL2013FTC261548
5. Address of the Registered Office and Principal Office (if any) of Corporate Person	2nd Floor, Surya Mansion Dalip Singh Marg, Hauz Khas, South Delhi-110016 India.
6. Liquidation Commencement Date of Corporate Person	27-03-2020
7. Name, Address, Email Address, Telephone Number and the Registration Number of the Liquidator	Raju Palaniakunnathil Kesavan, IP Reg. No. IBB/PA-001/IP-P00801/2017-18/11356, CGNRA-9 (33/1183A), Kodamassery Lane, Chalikkavattom, Vennala P.O., Kochi, Ernakulam, Kerala - 682028, India Email: rajupkin@gmail.com, Tel. No.: +91 9349198960
8. Last Date for Submission of Claims	12/05/2020

Notice is hereby given that the **THE LINKS INDIA PRIVATE LIMITED** has commenced voluntary liquidation on 27th March, 2020. The stakeholders of **THE LINKS INDIA PRIVATE LIMITED** are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 12th May, 2020 to the liquidator at the address mentioned against item 7.

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
Raju Palaniakunnathil Kesavan
(IP Reg. No. IBB/PA-001/IP-P00801/2017-18/11356)

Date: 12/04/2020
Place: Ernakulam

TV18 Broadcast Limited
CIN: L74300MH2005PLC281753
Registered Office: First Floor, Empire Complex, 414, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013
Website: www.nw18.com | E-mail: investors.tv18@nw18.com
Tel: +91 22 40019000, 66667777

NOTICE

In terms of Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, April 23, 2020, inter alia, to consider and approve the standalone and consolidated Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2020.

The said notice may be accessed at the Company's website at www.nw18.com and Stock Exchanges' website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Sd/-
Ratnesh Rukhariyar
Group Company Secretary

Date: April 16, 2020

Network 18 Media & Investments Limited
CIN: L65910MH1996PLC280969
Registered Office: First Floor, Empire Complex, 414, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013
Website: www.nw18.com | E-mail: investors.n18@nw18.com
Tel: +91 22 40019000, 66667777

NOTICE

In terms of Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, April 23, 2020, inter alia, to consider and approve the standalone and consolidated Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2020.

The said notice may be accessed at the Company's website at www.nw18.com and Stock Exchanges' website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Sd/-
Ratnesh Rukhariyar
Group Company Secretary

Date: April 16, 2020

BNP PARIBAS MUTUAL FUND

Investment Manager: BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC)
Corporate Identity Number (CIN): U65991MH2003PTC142972

Registered Office: BNP Paribas House, 1 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra - East, Mumbai - 400 051. Website: www.bnpparibasmf.in | Toll Free: 1800 102 2595

NOTICE CUM ADDENDUM NO. 18/2020

Notice cum Addendum to the Scheme Information Document (SID) and Key Information Memorandum (KIM) cum Application Forms for the Schemes of BNP Paribas Mutual Fund ('the Fund'):

- I. Introduction of SIP Pause facility under the Schemes of BNP Paribas Mutual Fund:**
BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC) has decided to introduce SIP Pause facility under all schemes offering SIP facility. With the SIP Pause facility, the investor shall have an option to temporarily pause the SIP installments for a specified period of time. Upon expiry of the specified period, the SIP installments would re-start automatically. SIP Pause facility shall be available to investors w.e.f. April 17, 2020.

The features, terms and conditions for availing the SIP Pause facility shall be as follows:-

- Under this Facility, the Investor has an option to temporarily pause the SIP for specific number of installments (i.e. Minimum 1 installment and Maximum 6 installments) by submitting the form for SIP Pause Facility (available at www.bnpparibasmf.in) at any of the Official Points of Acceptance of BNP Paribas Mutual Fund. Investors are further invited to request to note that the forms for SIP Pause Facility can be submitted to the designated email ID (mumbai@bnpparibasmf.in) as per the facility made available via addendum no. 15/2020 dated March 30, 2020.
- The SIP Pause form should be submitted at least 15 calendar days prior to the next SIP installment date (i.e. including the request date and the next SIP installment date). Investor cannot cancel the SIP Pause once registered.
- Investors can avail this facility only once in the tenure of the particular SIP.
- The SIP Pause facility is only available under Weekly, Monthly and Quarterly SIP frequencies.
- The SIP shall restart automatically from the immediate next eligible installment after the completion of specified pause period.
- If the SIP pause period is coinciding with the Top-Up facility, the SIP installment amount post completion of pause period would be inclusive of SIP Top-up amount. For e.g. SIP installment amount prior to Pause period is INR 3,000/- and Top-up amount is INR 1,000/-. If the pause period is completed after date of Top-up, then the SIP installment amount post completion of pause period shall be INR 4,000/-.
- This facility is not available for the SIPs sourced/registered through MF Utilities, Stock Exchange Platforms of NSE, BSE or ICEDX & Channel partner platforms as the SIP mandates are registered by respective entities or for SIPs which are registered by investors as Standing Instructions with their banks.
- AMC/Fund reserves the right to amend the terms and conditions of the SIP Pause facility and/or withdraw the said facility by issuing a suitable notice to this effect.

- II. Investors are requested to note the following update under Section VI of SID viz. 'Penalties, Pending litigation or proceedings, findings of inspections or investigations for which action may have been taken or is in the process of being taken by any regulatory authority', of all Schemes of the Fund and accordingly, the disclosure made therein and as appearing in the SID of all Schemes of the Fund shall be read as below:**
"SEBI vide its Show cause Notice (SCN) bearing reference No. SEBI/HO/EAD-3/JS/DJ/OW/P/3577/1/2019 dated May 29, 2019 has alleged that BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC) has traded in the scrip of Manappuram Finance Limited when in possession of Unpublished Price Sensitive information in violation of Section 12A(d) and 12A(e) of the SEBI Act, 1992 read with Regulation 3(i), 3A and 4 of the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992 read with Regulation 12(2) of (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015. A reply to the said SCN denying the allegations stated therein has been filed with SEBI. An opportunity of personal hearing was granted on October 01, 2019 by SEBI and the AMC availed the same. Thereafter, vide SEBI order dated March 26, 2020, the SCN in the matter has been disposed off by SEBI without any penalty for the AMC."

Note: This Notice cum addendum forms an integral part of the SID & KIM cum Application Forms of the Fund read with the addenda issued thereunder. All other features and terms and conditions as mentioned in the SID & KIM remain unchanged.

For BNP Paribas Asset Management India Private Limited (Investment Manager to BNP Paribas Mutual Fund)
Sd/-
Jyothish Krishnan
Head of Compliance, Legal & Secretarial

Date: April 16, 2020
Place: Mumbai

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.
Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051.
Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.icicipruffm.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirilon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 80 - 1248 Days Plan D (the Scheme)

Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential Mutual Fund has approved declaration of the following dividend under the dividend option of the Scheme, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e on April 22, 2020*:

Name of the Scheme/Plan	Dividend (₹ per unit) (Face value of ₹ 10/- each) [#]	NAV as on April 15, 2020 (₹ per unit)
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 80 - 1248 Days Plan D	0.0500	12.8651

\$ The dividend payout will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the dividend option of the Scheme.

Subject to deduction of applicable statutory levy.

* or the immediately following Business Day, if that day is a Non - Business Day.

Dividend will be paid to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the dividend option of the Scheme, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of dividend, the NAV of the dividend option of the Scheme would fall to the extent of dividend payout and statutory levy (if applicable).

Suspension of trading of units of the Scheme:
The units of the Scheme are listed on National Stock Exchange of India Limited (NSE). The trading of units of the Scheme will be suspended on NSE with effect from closing hours of trading of April 17, 2020.
For the purposes of redemption proceeds, the record date shall be April 22, 2020.

Place: Mumbai Sd/-
Date: April 16, 2020
No. 009/04/2020

Authorized Signatory

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.icicipruffm.com

NSE Disclaimer: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Scheme Information Document (SID) has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the SID. The investors are advised to refer to the SID for the full text of the Disclaimer clause of the NSE.

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile number to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit <https://www.icicipruffm.com> or visit AMFI's website [https://www.amfiindia.com](http://www.amfiindia.com)

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

